



इंटीग्रिटी पैकट (आई पी)

इंटीग्रिटी पैकट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टी आई), अन्तरराष्ट्रीय एन जी ओ द्वारा विकसित एक ऐसा साधन है जिसका लक्ष्य है सार्वजनिक संविदा में भ्रष्टाचार को रोकना । इंटीग्रिटी पैकट सार्वजनिक संविदा के लिए प्रिंसिपल एवं बोलीकर्ता (bidder) के बीच एक समझौता है, जो दोनों पक्षों को नैतिक कार्य-व्यवहार के लिए बाध्य करता है । इसमें अधिकार एवं दायित्व दोनों होते हैं जिससे दोनों पक्ष अपने कार्य-व्यवहार में पारदर्शी होंगे, कोई भी पक्ष न रिश्वत देगा, न रिश्वत का प्रस्ताव देगा, न रिश्वत की माँग करेगा, न रिश्वत स्वीकार करेगा और न ही ठेका प्राप्त करने के लिए बोलीकर्ता अपने प्रतिस्पर्धियों से साँठ-गाँठ करेगा, इत्यादि ।

इस इंटीग्रिटी पैकट को अपनाने में सेल अग्रणी कम्पनियों में से एक था और इस समय यह पैकट 20 करोड़ रुपये एवं इससे ऊपर के मूल्यवाले सभी निविदाएं, संविदाएं, लम्बी अवधि वाले समझौताओं और सेल-सीएमओ के Departmental warehouses के सभी हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट का एक अभिन्न अंग है ।

इंटीग्रिटी पैकट के मोनिटरिंग के लिए, सेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से निम्नलिखित प्रमुख व्यक्तित्व को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया है:

श्री मधुसूदन प्रसाद - आई ए एस (अवकाश प्राप्त) एवं पूर्व सचिव, शहरी विकास मंत्रालय

श्री अजीत मोहन शरण - आई ए एस (अवकाश प्राप्त) एवं पूर्व सचिव, आयूष मंत्रालय

श्री किशोर कुमार सांसी - भूतपूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विजया बैंक

इन आई ई एम का कार्य है कि वे स्वतंत्र रूप से एवं निष्पक्ष दृष्टि से यह समीक्षा करें कि इस समझौते के अन्तर्गत दिए गए दायित्वों का पार्टियाँ कहीं तक और कितना पालन करती हैं ।

जिन निविदाओं के मामले में इंटीग्रिटी पैकट शामिल होता है, वहाँ सेल बोलीकर्ताओं को पहले से ही विधिवत हस्ताक्षरित आई पी भेज देता है । बोलीकर्ताओं को उस पैकट पर हस्ताक्षर करके उसे अपनी बोलियों के साथ प्रस्तुत करना होता है । विधिवत हस्ताक्षरित आई पी के बिना प्राप्त बोलियाँ अस्वीकृत कर दी जाती हैं । आई ई एम के नाम को सभी निविदाओं जो 20 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य की हो या केन्द्रीय विपणन संगठन के Departmental Warehouses के सभी हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट निविदाओं में शामिल किया जाता है ।

बोलीकर्ताओं को, यदि कोई शिकायत हो, तो वे निविदा से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी/प्रचालन अधिकारी, सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा इंटीग्रिटी पैकट के आई ई एम से सम्पर्क कर सकते हैं। आई ई एम से इंटीग्रिटी पैकट सचिवालय (sail.ip.secretariat@sail.in), 16वाँ तल, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है । (सेल का आई पी www.sailtenders.co.in / [Standard Documents](#)) में उपलब्ध है ।